



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1054]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938

No. 1054]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/ VAISAKHA 12, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2016

**का.आ. 1611(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2422 (अ), तारीख 4 सितम्बर, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ए के 0/000 कि.मी. से 19/550 कि.मी., 22/625 कि.मी. से 23/950 कि.मी. (आरएचएस), 23/950 कि.मी. से 27/400 कि.मी., 29/000 कि.मी. से 31/400 कि.मी. (विल्लुपुरम-पुदुचेरी-कड्डलुर-नागापट्टिनम सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (बाइपास/चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 6 अक्टूबर, 2015 को “दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस” और “दिना थांधी” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

## अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ए के कि.मी. 0/000 से कि.मी. 19/550, कि.मी. 22/625 से कि.मी. 23/950 (आरएचएस), कि.मी. 23/950 से कि.मी. 27/400, कि.मी. 29/000 से कि.मी. 31/400 तक (विल्लुपुरम-पुदुचेरी-कड्डालोर-नागापट्टिनम सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम
				उप विभाजन से पहले	उप विभाजन के बाद				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	विल्लुपुरम	विल्लुपुरम	1) नंनाथमपालयम	190/4	190/4बी	निजी	नम	29	1) सीनुवासन पुत्र कालिवरधन 2) भास्कर पुत्र कालिवरधन
				251/5सी	251/5सी2	निजी	नम	64	1) कालिवरधन पुत्र पोन्नुसामी 2) परमेश्वरी पत्नी कृष्णामूर्ति
			2) सलयंपालयम (पश्चिम)	679/3बी	679/3बी2	निजी	शुष्क	100	टीएमटी. अंजलि पत्नी लक्ष्मणन
			3) अर्पिसंपालयम	184/1	184/1बी	निजी	शुष्क	362	1) पेरुमल पुत्र कन्नन नायडु 2) रमेश पुत्र कन्नन नायडु
				189/3	189/3	निजी	मनै	64	जयकोडि पुत्र नंदन
				189/5	189/5	निजी	मनै	80	नंदन पुत्र थैलन
				189/6	189/6बी	निजी	मनै	10	मुथुकान्नु पुत्र कृष्णन
				196/1	196/1बी	निजी	नम	270	अय्यप्पन पुत्र वासुदेवन
				197/3ए	197/3ए2	निजी	नम	1520	राजेन्द्रा रेड्डियार पुत्र बंगारु रेड्डियार
				197/3बी	197/3बी2	निजी	नम	2100	राजेन्द्रा रेड्डियार पुत्र बंगारु रेड्डियार
				197/3सी	197/3सी2	निजी	नम	1615	राजेन्द्रा रेड्डियार पुत्र बंगारु रेड्डियार
				197/3डी	197/3डी2	निजी	नम	3225	बालासुंदरम पुत्र थिल्लै गोविंदन
				197/5बी	197/5बी2	निजी	नम	150	अस्मत बी पत्नी कधर बाशा
				197/7	197/7बी	निजी	नम	2970	अय्यप्पन पुत्र वासुदेवन
				197/8	197/8बी	निजी	नम	1116	अय्यप्पन पुत्र वासुदेवन
				198	198/2	निजी	नम	753	अय्यप्पन पुत्र वासुदेवन
				200/1ए एण्ड 1बी	200/1ए2 एण्ड 1बी2	निजी	नम	2420	अस्मत बी पत्नी कधर बाशा
				200/2	200/2बी	निजी	नम	328	मरगाधम पत्नी पवलावनन
				200/3	200/3बी	निजी	नम	1540	अस्मत बी पत्नी कधर बाशा
				201/1	201/1बी	निजी	नम	903	सिंग्राम पुत्र लक्ष्मणा गोण्डर
				206/1	206/1बी	निजी	नम	32	1) शेखर पुत्र सिंग्राम 2) अझवर पुत्र सिंग्राम

				222 / 2	222 / 2बी	निजी	नम	2425	सुबिरामणि पुत्र सारंगपणि
				224 / 2	224 / 2बी	निजी	नम	928	अरुमुगम पुत्र कधिरवेल
				231 / 1	231 / 1बी	निजी	नम	1700	चन्द्रशेखरन पुत्र जम्बुलिंगम
				231 / 2	231 / 2बी	निजी	नम	4528	1) शिवरामा कृष्णन पुत्र चन्द्राबालन 2) सरवनन पुत्र सदाशिव गौण्डर 3) सत्यामूर्ति पुत्र सदाशिव गौण्डर
				232 / 1	232 / 1बी	निजी	नम	914	अरुमुगम पुत्र कधिरवेल
				233 / 1	233 / 1बी	निजी	नम	1744	अरुमुगम पुत्र कधिरवेल
				233 / 2	233 / 2बी	निजी	नम	716	अरुमुगम पुत्र कधिरवेल
				233 / 3	233 / 3बी	निजी	नम	214	अरुमुगम पुत्र कधिरवेल
				233 / 4	233 / 4बी	निजी	नम	1730	अरुमुगम पुत्र कधिरवेल
				233 / 5	233 / 5बी	निजी	नम	876	अरुमुगम पुत्र कधिरवेल
				234 / 1	234 / 1बी	निजी	नम	2192	गोपालकृष्णन पुत्र देशिंगु नायडु
				235 / 1	235 / 1बी	निजी	नम	34	गोपालकृष्णन पुत्र देशिंगु नायडु
				238	238 / 2	निजी	शुष्क	130	1) शिवरामा कृष्णन पुत्र चन्द्राबालन2) सरवनन पुत्र सदाशिव गौण्डर3) सत्यामूर्ति पुत्र सदाशिव गौण्डर
				239 / 1	239 / 1बी	निजी	शुष्क	1605	राधा अम्मल पत्नी जम्बुलिंगम
				239 / 2ए	239 / 2ए2	निजी	शुष्क	386	राधा अम्मल पत्नी जम्बुलिंगम
				239 / 2ए	239 / 2ए3	निजी	शुष्क	187	राधा अम्मल पत्नी जम्बुलिंगम
				239 / 2बी	239 / 2बी2	निजी	शुष्क	145	कल्याणमूर्ति पुत्र जम्बुलिंगम
				239 / 5	239 / 5बी	निजी	शुष्क	255	1) देशिंगु पुत्र अत्वर गौण्डर 2) पोक्किलै अम्मल पत्नी देशिंगु
							<b>कुल योग</b>	<b>40360</b>	

[फा. सं. भाराराप्रा / बीओटी / 11012 / 60 / 2005 (पार्ट) / पीआईयू-विल्लुपुरम]

राजेश गुप्ता, उप-सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2016

**S.O. 1611(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2422(E) dated 4<sup>th</sup> September 2015, published in Gazette of India, Extraordinary No. 1887, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Bypass / widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 45A, in the stretch of land from Km. 0/000 to Km. 19/550, Km. 22/625 to Km. 23/950 (RHS), Km. 23/950 to Km. 27/400, Km. 29/000 to Km. 31/400 (Viluppuram – Puducherry – Cuddalore - Nagapattinam Section) in Viluppuram district in the State of Tamil Nadu.

And whereas the substance of the said notification has been published in "**The New Indian Express**" and "**Dina Thanthi**" both dated the 6<sup>th</sup> October 2015 under Sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same has been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHECULE

**Brief description of the lands to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 0/000 to Km. 19/550, Km. 22/625 to Km. 23/950 (RHS), Km. 23/950 to Km. 27/400, Km. 29/000 to Km. 31/400 (Viluppuram-Puducherry-Cuddalore-Nagapattinam Section) of the National Highway No. 45A in the State of Tamil Nadu.**

Sl. No.	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number		Type of land	Nature of land	Area (in Square meters)	Name of the person interested
				Before sub division	After sub division				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Viluppuram	Viluppuram	1) Nannattampalayam	190/4	190/4B	Private	Wet	29	1) Seenuvasan S/o.Kalivaradhan 2) Baskar S/o.Kalivaradhan
				251/5C	251/5C2	Private	Wet	64	1) Kalivaradhan S/o.Ponnusamy 2) Parameswari W/o.Krishnamoorthy
			2) Salayampalayam (West)	679/3B	679/3B2	Private	Dry	100	Tmt. Anjalai W/o. Lakshmanan
			3) Arpisampalayam	184/1	184/1B	Private	Wet	362	1) Perumal S/o. Kannan Naidu 2) Ramesh S/o. Kannan Naidu
				189/3	189/3	Private	Manai	64	Jayakodi S/o. Nandhan
				189/5	189/5	Private	Manai	80	Nandhan S/o. Thailan
				189/6	189/6B	Private	Manai	10	Muthukannu S/o. Krishnan
				196/1	196/1B	Private	Wet	270	Ayyappan S/o. Vasudevan

				197/3A	197/3A2	Private	Wet	1520	Rajendra Reddiyar S/o. Bangaru Reddiyar
				197/3B	197/3B2	Private	Wet	2100	Rajendra Reddiyar S/o. Bangaru Reddiyar
				197/3C	197/3C2	Private	Wet	1615	Rajendra Reddiyar S/o. Bangaru Reddiyar
				197/3D	197/3D2	Private	Wet	3225	Balasundaram S/o. Thillai Govindhan
				197/5B	197/5B2	Private	Wet	150	Asmath Bee W/o. Kadhar Basha
				197/7	197/7B	Private	Wet	2970	Ayyappan S/o. Vasudevan
				197/8	197/8B	Private	Wet	1116	Ayyappan S/o. Vasudevan
				198	198/2	Private	Wet	753	Ayyappan S/o. Vasudevan
				200/1A & 1B	200/1A2 & 1B2	Private	Wet	2420	Asmath Bee W/o. Kadhar Basha
				200/2	200/2B	Private	Wet	328	Maragatham W/o. Pav alavannan
				200/3	200/3B	Private	Wet	1540	Asmath Bee W/o. Kadhar Basha
				201/1	201/1B	Private	Wet	903	Singaram S/o. Lakshmana Gounder
				206/1	206/1B	Private	Wet	32	1) Sekar S/o. Singaram 2) Azhwar S/o. Singaram
				222/2	222/2B	Private	Wet	2425	Subiramani S/o. Sarangapani
				224/2	224/2B	Private	Wet	928	Arumugam S/o. Kadhirvel
				231/1	231/1B	Private	Wet	1700	Chandrasekaran S/o. Jambulingam
				231/2	231/2B	Private	Wet	4528	1) Sivarama krishnan S/o. Chandirabalan 2) Saravanan S/o. Sadhasiva Gounder 3) Sathiyamurthy S/o. Sadhasiva Gounder
				232/1	232/1B	Private	Wet	914	Arumugam S/o. Kadhirvel
				233/1	233/1B	Private	Wet	1744	Arumugam S/o. Kadhirvel
				233/2	233/2B	Private	Wet	716	Arumugam S/o. Kadhirvel
				233/3	233/3B	Private	Wet	214	Arumugam S/o. Kadhirvel
				233/4	233/4B	Private	Wet	1730	Arumugam S/o. Kadhirvel
				233/5	233/5B	Private	Wet	876	Arumugam S/o. Kadhirvel

				234/1	234/1B	Private	Wet	2192	Gopalakrishnan S/o. Desingu Naidu
				235/1	235/1B	Private	Wet	34	Gopalakrishnan S/o. Desingu Naidu
				238	238/2	Private	Dry	130	1) Sivarama krishnan S/o. Chandirabalan 2) Saravanan S/o. Sadhasiva Gounder 3) Sathiyamurthy S/o. Sadhasiva Gounder
				239/1	239/1B	Private	Dry	1605	Radha Ammal W/o. Jambulingam
				239/2A	239/2A2	Private	Dry	386	Radha Ammal W/o. Jambulingam
				239/2A	239/2A3	Private	Dry	187	Radha Ammal W/o. Jambulingam
				239/2B	239/2B2	Private	Dry	145	KaliyamoorthiS/o. Jambulingam
				239/5	239/5B	Private	Dry	255	1) Desingu S/o. Alwar Gounder 2) Pokkilai ammal W/o. Desingu
<b>Total</b>								<b>40360</b>	

[F. No. NHAI-HQ/11013/2011-LA/Notif./PIU-Villupuram]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.